



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 90]  
No. 90]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 22, 2008/माघ 2, 1929  
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 22, 2008/MAGHA 2, 1929

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2008

का.आ. 122 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित सिक्के के अंकित मूल्य, आकार, डिजाइन और संरचना को अवधारित करती है कि :—

- (क) “तेल और प्राकृतिक गैस निगम का स्वर्ण जयंती समारोह” के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए केन्द्रीय सरकार के प्राधिकारी के अधीन जारी करने के लिए एकसाल में पाँच रुपए के अंकित मूल्य के सिक्कों का निर्माण भी किया जाएगा;
- (ख) पाँच रुपए अंकित मूल्य के सिक्के, निम्नलिखित विमाओं, डिजाइन और धातु संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात्:—

सारणी

| सिक्के का अंकित मूल्य | आकार और बाह्य व्यास         | धातु संरचना            |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
| (1)                   | (2)                         | (3)                    |
| पाँच रुपए             | गोल                         | फेरिटिक स्टेनलेस स्टील |
|                       | 23 मिलीमीटर सुरक्षा किनारों | लोहा — 83%             |
|                       | सहित (एकल धातु)             | निकल — 17%             |

(ग) पाँच रुपए का सिक्का निम्नलिखित डिजाइन के अनुरूप होगा, अर्थात् :—

(i) मुख भाग

सिक्के के मुख भाग दो समतल रेखाओं की सहायता से तीन भागों में विभाजित होगा। बाएं मध्य भाग पर “अशोक स्तंभ” का सिंह शीर्ष होगा जिसके नीचे हिन्दी में “सत्यमेव जयते” इबारत अंतर्लिखित होगी, दायें मध्य भाग पर अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य “5” शब्द होगा। ऊपरी भाग पर हिन्दी में “भारत” शब्द और अंग्रेजी में “INDIA” शब्द होगा और निचले भाग पर हिन्दी में “रुपये” शब्द और अंग्रेजी “RUPEES” शब्द होगा।

(ii) पृष्ठ भाग

सिक्के के इस भाग पर मध्य में ‘50’ के भीतर “तेल और प्राकृतिक गैस निगम” का लोगो होगा, जो तेल एवं प्राकृतिक गै 50वां वर्ष के समारोह को प्रदर्शित करेगा। संख्या ‘50’ के ऊपर शब्द ‘ongc’ होगा और संख्या के ठीक नीचे वर्ष ‘1956-2006’

और दाएं भाग पर कुछ पुष्प-विषयक नक्काशी होगी। लोगो एवं शब्द 'ONGC' के ऊपर सिक्का के ऊपरी भाग पर अंग्रेजी में शब्द "CELEBRATING INDIA" लिखा होगा और लोगो एवं वर्ष '1956-2006' के नीचे सिक्का के निचले भाग पर हिन्दी में "उत्सवरत भारत" लिखा होगा।

(iii) पाँच रुपये के सिक्के लिए सुरक्षा किनारा

परिधि पर सिक्का का सुरक्षा किनारा होगा। किनारे के मध्य में रिक्त जगहों द्वारा पृथक किए हुए दो खंडों के अंदर की ओर डिजाइन में उथला खांचा होगा। इस डिजाइन में उभार में मनकों की शृंखला अंतर्विष्ट होगी और प्रत्येक मनका उभार में झुकी हुई एक पंक्ति द्वारा अनुगम किए होगा। इसमें कुल 30 पंक्तियां और 30 मनके होंगे।

[फा. सं. 7/6/2005-सिक्का II (भाग)]

अशोक अजमानी, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**  
(Department of Economic Affairs)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st January, 2008

**S.O. 122(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906), the Central Government hereby determines the denomination, dimension, design and composition of the following coin, namely :—

- the coin of Five Rupees denomination shall be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government to commemorate the occasion of "GOLDEN JUBILEE CELEBRATION OF ONGC";
- the coin of the Five Rupees denomination shall also conform to the following dimension, and composition, as specified in the Table below namely :—

**TABLE**

| Denomination of the coin | Shape and outside diameter  | Metal composition  |
|--------------------------|---|--|
| (1)                      | (2)   | (3)  |
| Five Rupees              | Circular<br>23 millimeters with security edges<br>(Mono-Metallic) | Ferritic Stainless Steel<br>Containing - Iron—83%<br>Chromium —17% |

(c) the coin of Five Rupees shall also conform to the following design, namely :—

(i) **OBVERSE**

This face of the coin is divided into three portions with two horizontal lines. The center portion shall bear the "Lion Capitol" of Ashoka Pillar with the legend "सत्यमेव जयते" inscribed below and right center portion denominational value "5" in International Numerals. In the upper portion the word "भारत" in Hindi and "INDIA" in English and lower portion the word "रुपये" in Hindi and "RUPEES" in English;

(ii) **REVERSE**

This face of the coin shall bear the logo of "OIL AND NATURAL GAS CORPORATION" inside the number of "50" in the center which denotes celebration of ONGC. On top of the number '50' is the letters 'ongc' and just on the bottom of the number is the year '1956-2006' flanked on the left and right side with some floral design. The words "CELEBRATING INDIA" in English is written on the top of the coin above the logo and letters 'ongc' and the words "उत्सवरत भारत" is written on the bottom side of the coin below the logo and the year '1956-2006';

(iii) **SECURITY EDGE FOR FIVE RUPEES**

The edge of the coin shall be security edged on periphery. At the center of the edge there shall be groove with a design inside the two section separated by blank spaces. This design shall consist of chain of beads in relief and each bead being followed by one inclined line in relief. There shall be total 30 lines and 30 beads.

[F. No. 7/6/2005-Coin II (Pt)]

ASHOK AJMANI, Under Secy.